

वस्त्र मंत्रालय
कैबिनेट हेतु फरवरी, 2019 माह के लिए मासिक सारांश

1. नीतिगत निर्णय:

खाद्यान्नों की पैकेजिंग में एचडीपीई/पीपी थैलों के इस्तेमाल के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों में छूट

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत फरवरी, 2019 में पंजाब गेहूं की खरीद के लिए थैलों की 3.00 लाख गांठों तथा 30 कि.ग्रा. एचडीपीई/पीपी थैलों के 58,000 थैलों (50 कि.ग्रा. थैलों के 34,800 गांठों के बराबर) का उपयोग करने के लिए उच्च घनत्व वाले पॉली एथलीन/पॉली प्रोपैलीन (एचडीपीई/पीपी) थैलों की अनुमति दी गई है।

2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां

(i) **हथकरघा क्षेत्र:** फरवरी, 2019 में वाराणसी, नागपुर तथा पटना में राष्ट्रीय स्तर की तीन एक्सपो; इलाहाबाद तथा रायपुर में राष्ट्रीय स्तरीय की दो सिल्क फैब तथा चेन्नई में राज्य स्तर का एक्सपो कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसने उपभोक्ता तथा हथकरघा बुनकरों के बीच प्रत्यक्ष बाजार इंटरफेस प्रदान किया। विदेशी बाजार में हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए फ्रैंकफर्ट, जर्मनी तथा नई दिल्ली में फरवरी, 2019 में इंटरनेशनल सोर्सिंग एक्सपो नामक दो मेले आयोजित किए गए।

(ii) **हस्तशिल्प क्षेत्र:**

- माननीया वस्त्र मंत्री ने वसंत कुंज, नई दिल्ली में 18.02.2019 को हस्तशिल्प काम्प्लैक्स की आधारशिला रखी। माननीय सांसद श्री रमेश विधूड़ी इस अवसर पर उपस्थित थे।
- श्री देवेन्द्र फडनवीस, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने सूरजकुंड, फरीदाबाद (हरियाणा) में 01.02.2019 से 17.02.2019 तक आयोजित 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में थाइलैंड साझेदार राष्ट्र तथा महाराष्ट्र शीर्षक (थीम) राज्य था। देश भर के कई शिल्पकारों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
- माननीया वस्त्र मंत्री ने सांसद श्री रामचरण बोहरा की उपस्थिति में 25.02.2019 को जयपुर में हस्तशिल्प उत्पादकता केंद्र तथा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कारीगरों को टूल किट बांटे गए।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने कुंभ मेला, प्रयागराज में राज्य सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में 19.01.2019 से 02.02.2019 तक चले राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किया।

(iii) **रेशम क्षेत्र:** केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अचीवर्स को सम्मानित करने के लिए 09.02.2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ मिल मेगा सिल्क कार्यक्रम 'सर्जिंग सिल्क' का आयोजन किया। इस संदर्भ में सिल्क व्यापारी मैसर्स पीओटीएचवाईएस, चेन्नई ने वर्ष 2017-18 के लिए सिल्क मार्क लेबल के सबसे बड़े उपभोक्ता के लिए अवार्ड प्राप्त किया।

(iv) **कपास:** फरवरी, 2019 के दौरान बीज कपास की अखिल भारतीय आवक 58.35 लाख गांठों की थीं। इनमें से बीज कपास की 4.14 लाख गांठों की खरीद भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत की गई थी।

(v) **विद्युतकरघा क्षेत्र:** फरवरी, 2019 में भारत सरकार के कुल 2,21,750 रु. के प्रीमियम के हिस्से से विद्युतकरघा कामगारों की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 1979 विद्युतकरघा कामगारों को योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।

(vi) **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** फरवरी, 2019 के दौरान 193.08 करोड़ रु. की योजना लागत तथा 15.36 करोड़ रु. की सब्सिडी आवश्यकता से संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस) के अंतर्गत 56 यूआईडी जारी किए गए।

(vii) माननीया वस्त्र मंत्री ने निटिंग व निट-वियर क्षेत्र (2019-20 तक 47.72 करोड़ रु. का परिव्यय) के विकास के लिए 28.02.2019 को नई दिल्ली में पावर टैक्स इंडिया योजना के अंतर्गत एक योजना शुरू की।

(viii) माननीया वस्त्र मंत्री ने 13 फरवरी, 2019 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में विकास आयुक्त (हथकरघा), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) तथा विद्युतकरघा क्षेत्र के तहत कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत 39 जिलों में उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 100 दिवसीय एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्री, माननीय डॉ. थावरचंद गहलोत इस अवसर पर उपस्थित थे तथा उन्होंने कारीगरों/बुनकरों को सम्मानित किया। इसके अलावा सभी जिलों से बड़ी संख्या में कारीगरों और बुनकरों ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा कार्यक्रम के दौरान आयोजित स्टॉलों में हथकरघा/हस्तशिल्प की वस्तुओं को प्रदर्शित किया।
